

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से **3,000 करोड़ रुपया** (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए "**4.26% सरकारी प्रतिभूति 2023**",) ii) लाभ आधारित नीलामी के माध्यम से **14,000 करोड़ रुपया** (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए "**नई सरकारी प्रतिभूति, 2031**" और (iii) मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से **9,000 करोड़ रुपया** (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए "**6.76% सरकारी प्रतिभूति 2061**" की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूति प्रतिभूतियों में/6, 000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। 4.26% सरकारी प्रतिभूति, 2023, नई सरकारी प्रतिभूति, 2031 की नीलामी समान मूल्य विधि का प्रयोग करके और 6.76% सरकारी प्रतिभूति 2061 की नीलामी विविध मूल्य विधि का प्रयोग करके भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा **09 जुलाई, 2021 (शुक्रवार)** को संचालित की जाएगी।

2. प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।

3. नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में **09 जुलाई, 2021** को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4. नीलामियों के परिणाम की घोषणा **09 जुलाई, 2021 (शुक्रवार)** को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान **12 जुलाई, 2021 (सोमवार)** को किया जाएगा।

5. ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं.आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी "केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेनदेन-" संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार "कब निर्गमित" कारोबार के लिए पात्र होंगे।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग, नार्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 05 जुलाई, 2021